

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 271]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 2 जुलाई 2016—आषाढ 11, शक 1938

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 जुलाई 2016

क्र. बी-8-5-2016-14-2.—भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के पत्र क्रमांक 13015-03-2016-क्रेडिट-II, दिनांक 23 फरवरी 2016 द्वारा दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत वर्ष 2016-17 मौसम खरीफ एवं रबी के लिये अधिसूचना क्रमांक 189, दिनांक 23 अप्रैल 2016 जारी की गई है. जारी अधिसूचना में मौसम खरीफ 2016 के लिये संलग्न सूची अनुसार पटवारी हल्का स्तर पर अधिसूचित फसलों की जिला अनूपपुर, इंदौर, डिण्डोरी एवं शहडोल के लिये संशोधित अधिसूचना जारी की जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. एस. धुर्वे, उपसचिव.

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार पटवारी हल्को की सूची

मौसम	खरीफ		वर्ष	2016-2017	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफलवाली घयनित फसलों की हल्कावार					
जिला	तहसील	श.नि.म.का नाम	पटवारी हल्का न.	पटवारी मुख्यालय का नाम	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	बाजरा
अनूपपुर										
मूल अधिसूचना क्र 189, दिनांक 23.4.2016में निम्नानुसार हल्कों के समक्ष फसलों को जोड़ा जाता है।										
	पुष्पराजगढ़	खमरोध	5	पद्मनिया					मक्का	
			7	मिट्टूमहुआ		धान असिंचित			मक्का	
			8	कोडार		धान असिंचित				
			10	अहिरगवां		धान असिंचित	सोयाबीन			
			11	खमरोध				तुअर		
			12	सरई			सोयाबीन			
			13	तरंग			सोयाबीन			
			24	घरकूमर			सोयाबीन			
			26	बीजापुरी नं.2			सोयाबीन			
			27	अल्हवार			सोयाबीन			
		गिरारी	31	मेढाखार			सोयाबीन			
			34	करोदापानी		धान असिंचित				
			43	जरही		धान असिंचित				
		दमेहड़ी	62	खंतगांव			सोयाबीन			
			67	लमसरई			सोयाबीन			
			70	दमेहड़ी			सोयाबीन			
			71	बिजीरा			सोयाबीन			
			72	घुईदादर			सोयाबीन			
			76	बिलासपुर			सोयाबीन			
			79	पड़रिया					मक्का	
			81	ककरिया			सोयाबीन			
			83	बोदा					मक्का	
		भंजरी	84	जीलंग					मक्का	
			86	किरगी		धान असिंचित				
			90	कोहका		धान असिंचित				
			101	पिपरहा		धान असिंचित				

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार पटवारी हल्को की सूची

मौसम	खरीफ	वर्ष	2016-2017	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफलवाली वयनित फसलों की हल्कावार सूची						
जिला	सहस्रक	रा.नि.म.का नाम	पटवारी इकाई न.	पटवारी मुख्यालय का नाम	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	बाजरा
	इन्दौर									
	इन्दौर									
		इन्दौर-2								
			00017	निहालपुरखेडी			सोयाबीन			
			00023	असरावदखुद			सोयाबीन			
			00024	मिर्जापुर			सोयाबीन			
			00025	रालामडल			सोयाबीन			
			00026	लिबोदी			सोयाबीन			
			00027	बिलावली			सोयाबीन			
			00031	निपानिया			सोयाबीन			
			00036	लसुडियामोरी			सोयाबीन			
			00037	अरडिया			सोयाबीन			
			00057	मूनडलानायता			सोयाबीन			
		कनाडिया-3								
			00038	पानोड			सोयाबीन			
			00039	झलारिया			सोयाबीन			
			00040	बिसनखेडा			सोयाबीन			
			00041	खातिपिलया			सोयाबीन			
			00042	बुरानाखेडी			सोयाबीन			
			00043	हरनखेडी			सोयाबीन			
			00044	सेमलयाघाऊ			सोयाबीन			
			00046	गारिया			सोयाबीन			
			00047	चौहानखेडी			सोयाबीन			
			00049	कनाडिया			सोयाबीन			
		खडेल-5								
			00045	गोगाखेडी			सोयाबीन			
			00069	सिन्धीबडोदा			सोयाबीन			
			00070	काजिपलासिया			सोयाबीन			
			00071	खडेलबुजुर्ग			सोयाबीन			
			00072	खडेलखुद			सोयाबीन			
			00073	अरन्या			सोयाबीन			
			00074	गेहली			सोयाबीन			
			00075	बावलयाखुद			सोयाबीन			
			00076	मोरोदहाट			सोयाबीन			
			00080	पेडनी			सोयाबीन			
			00081	सेमन्यारायमल			सोयाबीन			
			00082	खण्डेल			सोयाबीन			
			00083	शिवनी			सोयाबीन			
		भिचौली-4								
			00048	बेगमखेडी			सोयाबीन			
			00050	गारिपिलया			सोयाबीन			
			00051	असरावदबुजुर्ग			सोयाबीन			
			00052	बडियाकिमा			सोयाबीन			
			00053	भिचौलीहप्सी			सोयाबीन			
			00055	देवगुराडिया			सोयाबीन			
			00058	सनावदिया			सोयाबीन			
			00059	दुधिया			सोयाबीन			
			00060	उमरियाखुद			सोयाबीन			
			00061	जामन्या खुद			सोयाबीन			
			00062	बिहाडिया			सोयाबीन			
			00063	तिल्लौर खुद			सोयाबीन			
			00064	काचरोट			सोयाबीन			
			00065	तिल्लौरबुजुर्ग			सोयाबीन			
			00066	मुण्डलादोस्तदार			सोयाबीन			
			00067	सोनवाय			सोयाबीन			

		00068	धमनाय		सोयाबीन		
		00077	पिवडाय		सोयाबीन		
		00078	पिपल्दा		सोयाबीन		
		00079	कम्पेल		सोयाबीन		
	<b>राऊ-1</b>						
		00001	छोटा बागडदा		सोयाबीन		
		00002	नैनोद		सोयाबीन		
		00003	रिजलाय		सोयाबीन		
		00004	कलारिया		सोयाबीन		
		00005	बिसनावदा		सोयाबीन		
		00006	सिहासा		सोयाबीन		
		00007	बाक		सोयाबीन		
		00009	अहिरखेडी		सोयाबीन		
		00010	नावदापय		सोयाबीन		
		00011	सिन्दोडा		सोयाबीन		
		00012	नरलाय		सोयाबीन		
		00013	रंगवासा		सोयाबीन		
		00018	राऊ		सोयाबीन		
		00019	माचला		सोयाबीन		
		00020	केलोदकर्ताल		सोयाबीन		
		00021	मोरोद नेहरु		सोयाबीन		
		00022	उमरीखेडा		सोयाबीन		
	<b>देपालपुर</b>						
	<b>गौतमपुरा-1</b>						
		00001	गिरीता		सोयाबीन		
		00002	पिरनलवासा		सोयाबीन		
		00003	फुलान		सोयाबीन		
		00004	बहिरामपुर		सोयाबीन		
		00005	तलावली		सोयाबीन		
		00006	छडोदा		सोयाबीन		
		00007	जलोदियाजान		सोयाबीन		
		00008	धर्माट		सोयाबीन		
		00009	चान्दनखेडी		सोयाबीन		
		00010	पाडल्या		सोयाबीन		
		00011	भील बडोली		सोयाबीन		
		00012	कस्बा गौतमपुरा		सोयाबीन		
		00013	बछोडा		सोयाबीन		
		00014	रलायता		सोयाबीन		
		00015	अत्यावा		सोयाबीन		
		00016	सातेर		सोयाबीन		
		00017	फरकोदा		सोयाबीन		
		00018	मंडकवास		सोयाबीन		
		00019	पितावली		सोयाबीन		
		00020	कडोदा		सोयाबीन		
		00021	गुडर		सोयाबीन		
		00022	रुद्राख्या		सोयाबीन		
		00023	सुनाला		सोयाबीन		
		00024	कटकोदा		सोयाबीन		
		00025	काई		सोयाबीन		
		00026	जलालपुरा		सोयाबीन		
		00027	गोकुलपुर		सोयाबीन		
		00028	भिडोता		सोयाबीन		
		00029	जलोदियापार		सोयाबीन		
	<b>देपालपुर-2</b>						
		00030	लिम्बोदीपार		सोयाबीन		
		00031	सेमदा		सोयाबीन		
		00032	खटवाडी		सोयाबीन		
		00033	कस्बा देपालपुर		सोयाबीन		
		00034	बिरगोदा		सोयाबीन		
		00035	बनेडिया		सोयाबीन		
		00036	खिमलावदा		सोयाबीन		
		00037	अटाहडा		सोयाबीन		

		00038	करजोदा	-	सोयाबीन	-	-
		00039	देवराखेडी	-	सोयाबीन	-	-
		00040	बान्याखेडी	-	सोयाबीन	-	-
		00041	खाडिया	-	सोयाबीन	-	-
		00042	शाहपुर	-	सोयाबीन	-	-
		00043	नान्दा	-	सोयाबीन	-	-
		00044	गंगाजलखेडी	-	सोयाबीन	-	-
		00045	बडोली हीज	-	सोयाबीन	-	-
		00046	तकीपुरा	-	सोयाबीन	-	-
		00047	खडी	-	सोयाबीन	-	-
		00048	खजराया	-	सोयाबीन	-	-
		00049	बेगन्दा	-	सोयाबीन	-	-
		00050	आरोदाकोट	-	सोयाबीन	-	-
		00051	छोटी कलमेर	-	सोयाबीन	-	-
		00052	घादेर	-	सोयाबीन	-	-
		00053	हरनासा	-	सोयाबीन	-	-
	<b>बेटमा-3</b>						
		00054	जलोदियापथ	-	सोयाबीन	-	-
		00055	चटवाडा	-	सोयाबीन	-	-
		00056	चिकलीदा	-	सोयाबीन	-	-
		00057	संगडोद	-	सोयाबीन	-	-
		00058	शिवगढ	-	सोयाबीन	-	-
		00059	दोलताबाद	-	सोयाबीन	-	-
		00060	रंगवासा	-	सोयाबीन	-	-
		00061	सेजवानी	-	सोयाबीन	-	-
		00062	रामबडोदिया	-	सोयाबीन	-	-
		00063	घाटाबिलोद	-	सोयाबीन	-	-
		00064	सांगवी	-	सोयाबीन	-	-
		00065	मेठवाडा	-	सोयाबीन	-	-
		00066	झलारिया	-	सोयाबीन	-	-
		00067	रावद	-	सोयाबीन	-	-
		00068	सनावदा	-	सोयाबीन	-	-
		00069	रोलाय	-	सोयाबीन	-	-
		00070	बोरिया	-	सोयाबीन	-	-
		00071	बोरसी	-	सोयाबीन	-	-
		00072	औरंगपुरा	-	सोयाबीन	-	-
		00073	राजपुरा	-	सोयाबीन	-	-
		00074	ललडीपुरा	-	सोयाबीन	-	-
		00075	कालासुरा	-	सोयाबीन	-	-
		00076	कस्बा बेटमा	-	सोयाबीन	-	-
		00077	पीर पिपल्या	-	सोयाबीन	-	-
		00078	सलमपुर	-	सोयाबीन	-	-
		00079	रणमल बिल्लोद	-	सोयाबीन	-	-
		00080	काली बिल्लोद	-	सोयाबीन	-	-
		00081	चिराखान	-	सोयाबीन	-	-
		00082	बजरंगपुरा	-	सोयाबीन	-	-
		00083	बिजेपुर	-	सोयाबीन	-	-
		00084	माचल	-	सोयाबीन	-	-
		00085	गलोडा	-	सोयाबीन	-	-
		00086	धुवावरा	-	सोयाबीन	-	-
		00087	धन्नड	-	सोयाबीन	-	-
		00088	बगोदा	-	सोयाबीन	-	-
	<b>मह</b>						
	<b>मह-1</b>						
		00001	भैंसलाय	-	सोयाबीन	-	-
		00002	सोनवाय	-	सोयाबीन	-	-
		00003	पिराडुबर	-	सोयाबीन	-	-
		00004	उमरिया	-	सोयाबीन	-	-
		00005	नावदा	-	सोयाबीन	-	-
		00006	महगांव	-	सोयाबीन	-	-
		00007	सातेर	-	सोयाबीन	-	-
		00009	कदटी	-	सोयाबीन	-	-

	00010	टिही	-	सोयाबीन	-	-	-
	00011	भाटखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
	00013	अवलाय	-	सोयाबीन	-	-	-
	00014	पंजारिया	-	सोयाबीन	-	-	-
	00015	फफुन्द	-	सोयाबीन	-	-	-
	00016	सिलोदिया	-	सोयाबीन	-	-	-
	00017	सीतापाट	-	सोयाबीन	-	-	-
	00018	नादेड	-	सोयाबीन	-	-	-
	00019	भिघौली	-	सोयाबीन	-	-	-
	00020	कुवाली	-	सोयाबीन	-	-	-
	00021	बेरछा	-	सोयाबीन	-	-	-
	00022	केलोद	-	सोयाबीन	-	-	-
	00023	जामली	-	सोयाबीन	-	-	-
	00025	अकवी	-	सोयाबीन	-	-	-
	00026	डोंगरगाव	-	सोयाबीन	-	-	-
	00027	गांगल्याखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
	00028	गवली पलासिया	-	सोयाबीन	-	-	-
	<b>मानपुर-2</b>						
	00029	बडगाँदा	-	सोयाबीन	-	-	-
	00030	मेण	-	सोयाबीन	-	-	-
	00031	यशवत नगर	-	सोयाबीन	-	-	-
	00032	राजपुरा कुटी	-	सोयाबीन	-	-	-
	00033	हासलपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
	00034	कदमपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
	00035	जाकखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
	00036	सिहीदा	-	सोयाबीन	-	-	-
	00038	शेरपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
	00039	जाफराबाद	-	सोयाबीन	-	-	-
	00040	कांकरिया	-	सोयाबीन	-	-	-
	00041	मानपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
	00042	रामपुरिया खुर्द	-	सोयाबीन	-	-	-
	00043	कोलानी	-	सोयाबीन	-	-	-
	00045	गोकल्या कण्ड	-	सोयाबीन	-	-	-
	00044	काली किराय	-	सोयाबीन	-	-	-
	00046	नाहरखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
	00047	खुर्दा	-	सोयाबीन	-	-	-
	00048	खुर्दा	-	सोयाबीन	-	-	-
	00049	छापरिया	-	सोयाबीन	-	-	-
	00050	जामखुर्द	-	सोयाबीन	-	-	-
	00051	जामबुजुर्ग	-	सोयाबीन	-	-	-
	00053	मांगल्या	-	सोयाबीन	-	-	-
	00054	बशीपिपरी	-	सोयाबीन	-	-	-
	<b>सिमरोल-3</b>						
	00052	पिपल्या	-	सोयाबीन	-	-	-
	00056	कोदरिया	-	सोयाबीन	-	-	-
	00057	गुजरखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
	00058	नेऊगुराडिया	-	सोयाबीन	-	-	-
	00059	घोरडिया	-	सोयाबीन	-	-	-
	00060	अगौरा	-	सोयाबीन	-	-	-
	00061	अम्बाचदन	-	सोयाबीन	-	-	-
	00062	हरसोला	-	सोयाबीन	-	-	-
	00063	दतोदा	-	सोयाबीन	-	-	-
	00064	सेमदी	-	सोयाबीन	-	-	-
	00065	सिमरोल	-	सोयाबीन	-	-	-
	00066	शिवनगर	-	सोयाबीन	-	-	-
	00067	जोशीगुराडिया	-	सोयाबीन	-	-	-
	00068	घोसीखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
	00069	सेण्डल	-	सोयाबीन	-	-	-
	00070	बाईयाम	-	सोयाबीन	-	-	-
	00071	गुजारा	-	सोयाबीन	-	-	-
	00072	राजपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
	00073	कलथाना	-	सोयाबीन	-	-	-

		00074	घोरल		सोयाबीन		
		00075	गवाल		सोयाबीन		
		00055	मलई		सोयाबीन		
सांवेर							
	क्षिपा-3						
		00045	गुरान		सोयाबीन		
		00046	मकोडिया		सोयाबीन		
		00047	पूवाडीहप्पा		सोयाबीन		
		00048	पूवाडीदाई		सोयाबीन		
		00049	हत्तनिया		सोयाबीन		
		00050	कदवा		सोयाबीन		
		00051	बरलई जागीर		सोयाबीन		
		00052	बुढी बरलई		सोयाबीन		
		00053	पीर कराडिया		सोयाबीन		
		00054	डकाट्या		सोयाबीन		
		00055	टोडी		सोयाबीन		
		00056	रामपिपल्या		सोयाबीन		
		00058	मागल्या सडक		सोयाबीन		
		00059	लसुडिया परमार		सोयाबीन		
		00060	सुलाखेडी		सोयाबीन		
		00061	कदवाली बुजुर्ग		सोयाबीन		
		00062	पलासिया		सोयाबीन		
		00063	मण्डलावदा		सोयाबीन		
		00064	कदवाली खुर्द		सोयाबीन		
		00065	फरसपुर		सोयाबीन		
		00066	व्यासखेडी		सोयाबीन		
	धरमपुरी-2						
		00026	टाकून		सोयाबीन		
		00027	बालोदा टाकून		सोयाबीन		
		00028	धतुरिया		सोयाबीन		
		00029	गदला		सोयाबीन		
		00030	कजलाना		सोयाबीन		
		00031	तराना		सोयाबीन		
		00032	राजोदा		सोयाबीन		
		00033	कटक्या		सोयाबीन		
		00034	सोलसिन्दा		सोयाबीन		
		00035	मुरादपुरा, रिंगनोदिया		सोयाबीन		
		00036	भवेरासला		सोयाबीन		
		00037	कुमेडी		सोयाबीन		
		00038	भाग्या		सोयाबीन		
		00039	मगरखेडा		सोयाबीन		
		00040	पंचडेरिया		सोयाबीन		
		00041	बजरंग पालिया		सोयाबीन		
		00042	धनखेडी		सोयाबीन		
		00043	ब्राह्मण पिपल्या		सोयाबीन		
		00044	दर्जीकराडिया		सोयाबीन		
	सांवेर-1						
		00001	बुडानियापथ		सोयाबीन		
		00002	खामोद आजना		सोयाबीन		
		00003	पोटलोद		सोयाबीन		
		00004	चित्तोडा		सोयाबीन		
		00005	बालरिया		सोयाबीन		
		00006	गुलाबट		सोयाबीन		
		00007	हिण्डोलिया		सोयाबीन		
		00008	बडोदिया खान		सोयाबीन		
		00009	कायस्थ खेडी		सोयाबीन		
		00010	पानोड		सोयाबीन		
		00011	बिलोदा नायता		सोयाबीन		
		00012	सिमरोल		सोयाबीन		
		00013	जामोदी		सोयाबीन		
		00014	कडाना		सोयाबीन		

		00015	कस्बा सावेर			सोयाबीन	-	-	-
		00016	पंचोला			सोयाबीन	-	-	-
		00017	नागापुर			सोयाबीन	-	-	-
		00018	मण्डौल			सोयाबीन	-	-	-
		00019	बलगरा			सोयाबीन	-	-	-
		00020	खलखला			सोयाबीन	-	-	-
		00021	खेतेडिया बज्जात			सोयाबीन	-	-	-
		00022	हरियाखेडी			सोयाबीन	-	-	-
		00023	पिपल्या कायस्थ			सोयाबीन	-	-	-
		00024	कछालिया			सोयाबीन	-	-	-
		00025	अजनाद			सोयाबीन	-	-	-
	हातोद								
	आगरा-1								
		00001	मूरखेडा			सोयाबीन	-	-	-
		00002	हसनाबाद			सोयाबीन	-	-	-
		00003	पिपलीदा			सोयाबीन	-	-	-
		00004	आगरा			सोयाबीन	-	-	-
		00005	अहिरखेडी			सोयाबीन	-	-	-
		00006	सुमठा			सोयाबीन	-	-	-
		00007	अरन्या			सोयाबीन	-	-	-
		00008	बदरखा			सोयाबीन	-	-	-
		00009	जम्बूडी सरवर			सोयाबीन	-	-	-
		00010	कांकरियापाल			सोयाबीन	-	-	-
		00011	जिन्दाखेडा			सोयाबीन	-	-	-
		00012	बसान्द्रा			सोयाबीन	-	-	-
		00023	सिकन्द्री			सोयाबीन	-	-	-
		00024	उधापुरा			सोयाबीन	-	-	-
		00025	अकसांदा			सोयाबीन	-	-	-
		00026	नेवरी			सोयाबीन	-	-	-
		00027	अटावदा			सोयाबीन	-	-	-
		00028	अजन्दा			सोयाबीन	-	-	-
		00029	गोहान			सोयाबीन	-	-	-
		00030	कराडिया			सोयाबीन	-	-	-
		00031	पंच बडोदिया			सोयाबीन	-	-	-
		00032	गुलावट			सोयाबीन	-	-	-
	हातोद-2								
		00013	माताबरोडी			सोयाबीन	-	-	-
		00014	बघाना			सोयाबीन	-	-	-
		00015	सतलाना			सोयाबीन	-	-	-
		00016	अलवासा			सोयाबीन	-	-	-
		00017	रेवती			सोयाबीन	-	-	-
		00018	पालिया हैदर			सोयाबीन	-	-	-
		00019	कांकरिया बोडिया			सोयाबीन	-	-	-
		00020	खजूरिया			सोयाबीन	-	-	-
		00021	हातोद			सोयाबीन	-	-	-
		00022	रोजडी			सोयाबीन	-	-	-
		00033	बडी कलमेर			सोयाबीन	-	-	-
		00034	जम्बूडी हप्ती			सोयाबीन	-	-	-
		00035	बुढानिया			सोयाबीन	-	-	-
		00036	लिम्बोदागारी			सोयाबीन	-	-	-
		00037	बडाबांगडदा			सोयाबीन	-	-	-
		00038	दिगरिया बादशाह			सोयाबीन	-	-	-



**प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार पटवारी हल्को की सूची**

मौसम	खरीफ	वर्ष	2016-2017	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफलवाली घनित फसलों की हल्कावार	धान सिंचित	धान असिंचित	तोयाबीन	तुअर	मक्का	बाजरा			
जिला	तहसील	रा.नि.म.का नाम	पटवारी हल्का न.	पटवारी मुख्यालय का नाम									
डिंडोरी	डिण्डोरी	अमरपुर	00090	नांदा माल		धानअसिंचित	-	-	-	-			
			00091	अलोनी		धानअसिंचित	-	-	-	-			
			00092	रामसाढ		धानअसिंचित	-	-	-	-			
			00093	बरसिंघा माल		धानअसिंचित	-	-	-	-			
			00094	देवरी माल		धानअसिंचित	-	-	-	-			
			00095	बिलासर माल		धानअसिंचित	-	-	-	-			
			00096	खुडिया रैयत		धानअसिंचित	-	-	-	-			
			00097	अमरपुर		धानअसिंचित	-	-	-	-			
			00098	भाखा माल		धानअसिंचित	-	-	-	-			
			00099	मोहनमिर माल		धानअसिंचित	-	-	-	-			
			00100	गिठोरी		धानअसिंचित	-	-	-	-			
			00101	बटिया रैयत		धानअसिंचित	-	-	-	-			
			00102	खरगहना मय बसनिया		धानअसिंचित	-	-	-	-			
			00103	बोधघुडी		धानअसिंचित	-	-	-	-			
			00104	इंडिसरई		धानअसिंचित	-	-	-	-			
			00105	निघोरी रैयत		धानअसिंचित	-	-	-	-			
			00106	भानपुर रैयत		धानअसिंचित	-	-	-	-			
			00111	अंधियार खोह		धानअसिंचित	-	-	-	-			
			00112	जलगांव रैयत		धानअसिंचित	-	-	-	-			
			00113	मोहारी रैयत		धानअसिंचित	-	-	-	-			
			00114	कोको रैयत		धानअसिंचित	-	-	-	-			
			00107	मनोरी		धानअसिंचित	-	-	-	-			
			00108	चारपाली रैयत		धानअसिंचित	-	-	-	-			
			00109	कमको मोहनिया		धानअसिंचित	-	-	-	-			
			00110	धेवरी रैयत		धानअसिंचित	-	-	-	-			
			डिंडोरी	डिंडोरी	डिंडोरी	00042	हिनीला माल		धानअसिंचित	-	-	-	-
						00043	बिजौरा माल		धानअसिंचित	-	-	-	-
						00044	देवरा माल		धानअसिंचित	-	-	-	-
						00045	झाड़विद्यपुर माल		धानअसिंचित	-	-	-	-
						00057	मडिया रास		धानअसिंचित	-	-	-	-
						00058	कूडा माल		धानअसिंचित	-	-	-	-
						00059	सिमरिया माल		धानअसिंचित	-	-	-	-
						00060	सरहरी माल		धानअसिंचित	-	-	-	-
						00061	चट्टवा रैयत		धानअसिंचित	-	-	-	-
						00062	डांड बिछिया		धानअसिंचित	-	-	-	-
						00063	घानाघाट		धानअसिंचित	-	-	-	-
						00064	कनई सांगवा माल		धानअसिंचित	-	-	-	-
						00065	धनुआ सागर		धानअसिंचित	-	-	-	-
						00066	खिरसारी		धानअसिंचित	-	-	-	-
						00067	डिण्डोरी		धानअसिंचित	-	-	-	-
						00069	औरई माल		धानअसिंचित	-	-	-	-
						00071	रयपुरा माल		धानअसिंचित	-	-	-	-
00072	इमलई माल					धानअसिंचित	-	-	-	-			
00068	सुब्खार माल		धानअसिंचित	-	-	-	-						
00070	सुब्खार रैयत		धानअसिंचित	-	-	-	-						
न्यूसा	न्यूसा	न्यूसा	00046	पडरिया माल		धानअसिंचित	-	-	-	-			

		00047	देवरी माल	धानअसिचित	-	-	-	-
		00048	नारायणडीह रैयत	धानअसिचित	-	-	-	-
		00049	माधवपुर रैयत	धानअसिचित	-	-	-	-
		00050	नेवसा माल	धानअसिचित	-	-	-	-
		00051	बसनिया माल	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00052	पडरिया कला	धानअसिचित	-	-	-	-
		00053	पोंडी माल	धानअसिचित	-	-	-	-
		00054	धुरी माल	धानअसिचित	-	-	-	-
		00055	रुसा माल	धानअसिचित	-	-	-	-
		00056	उदरी माल	धानअसिचित	-	-	-	-
	<b>बम्हनी</b>							
		00128	जाताडोंगरी माल	धानअसिचित	-	-	-	-
		00129	डुंगरिया रैयत	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00130	सान्हेघोरी माल	धानअसिचित	-	-	-	-
		00131	अण्डई रैयत	धानअसिचित	-	-	-	-
		00132	खाम्ही माल	धानअसिचित	-	-	-	-
		00133	बरगांव रैयत	धानअसिचित	-	-	-	-
		00134	जाडासुरंग	धानअसिचित	-	-	-	-
		00135	किवाड रैयत	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00136	दामी तितराही	धानअसिचित	-	-	-	-
		00137	करगांव रैयत	धानअसिचित	-	-	-	-
		00138	किवलारी रैयत	धानअसिचित	-	-	-	-
		00139	बम्हनी माल	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00141	मोहगांव रैयत	धानअसिचित	-	-	-	-
		00140	हडसिंगरी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00142	मोहली रैयत	धानअसिचित	-	-	-	-
		00143	मानिकपुर माल	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00145	भाजीटोला माल	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00146	लदवानी	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00147	अतरिया रैयत	धानअसिचित	-	-	-	-
		00148	घादरानी	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00144	सरई माल	धानअसिचित	-	-	-	-
	<b>विक्रमपुर</b>							
		00001	केलवारा रैयत	धानअसिचित	-	-	-	-
		00002	सरई रैयत	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00003	जमगांव	धानअसिचित	-	-	-	-
		00004	अमनी पिपरिया माल	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00005	दुधी मझौली रैयत	धानअसिचित	-	-	-	-
		00006	छिवली माल	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00007	बटोधा माल	धानअसिचित	-	-	-	-
		00008	पाकरबघरी माल	धानअसिचित	-	-	-	-
		00009	चिचरिंगझर रैयत	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00011	सिलहरी रैयत	धानअसिचित	-	-	-	-
		00012	भेर माल	धानअसिचित	-	-	-	-
		00013	खमरिया माल	धानअसिचित	-	-	-	-
		00014	दुहनिया रैयत	धानअसिचित	-	-	-	-
		00015	सारंगपुर पडरिया रैयत	धानअसिचित	-	-	-	-
		00025	नूनखान रैयत	धानअसिचित	-	-	-	-
		00026	आनाखेडा रैयत	धानअसिचित	-	-	-	-
		00028	घुसिया माल	धानअसिचित	-	-	-	-
		00029	दरौ मोहगांव माल	धानअसिचित	-	-	-	-
		00010	सहजपुरी रैयत	धानअसिचित	-	-	-	-
		00024	विक्रमपुर रैयत	धानअसिचित	-	-	-	-
		00027	कसई सोदा रैयत	धानअसिचित	-	-	-	-
	<b>शाहपुर</b>							
		00017	कुई माल	धानअसिचित	-	-	-	-
		00020	अझवार माल	धानअसिचित	-	-	-	-

		00021	गन्वाही माल	धानअसिचित	-	-	-	-
		00022	तेन्दुलूर मोहतरा रयत	धानअसिचित	-	-	-	-
		00023	गनेशपुर माल	धानअसिचित	-	-	-	-
		00030	घोरा माल	धानअसिचित	-	-	-	-
		00031	मुडिया खूद	धानअसिचित	-	-	-	-
		00032	केवडाही रयत	धानअसिचित	-	-	-	-
		00033	जुनबाणी माल	धानअसिचित	-	-	-	-
		00034	मिडिया कला	धानअसिचित	-	-	-	-
		00035	विदयपुर रयत	धानअसिचित	-	-	-	-
		00036	पलकी माल	धानअसिचित	-	-	-	-
		00037	बरगई माल	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00038	रकरिया रयत	धानअसिचित	-	-	-	-
		00039	नरिया माल	धानअसिचित	-	-	-	-
		00040	शाहपुर	धानअसिचित	-	-	-	-
		00041	धमनगाव	धानअसिचित	-	-	-	-
		00016	राम गुडा माल	धानअसिचित	-	-	-	-
		00018	सारस ताल रयत	धानअसिचित	-	-	-	-
		00019	बूडन रयत	धानअसिचित	-	-	-	-
		सक्का						
		00073	किसलपुरी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00074	रमपुरी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00075	खैरदा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00076	सक्का	धानअसिचित	-	-	-	-
		00077	मैसवाही	धानअसिचित	-	-	-	-
		00078	उमरिया माल	धानअसिचित	-	-	-	-
		00079	कमरासोडा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00080	बहेरा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00081	धनवासी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00082	मिडिया माल	धानअसिचित	-	-	-	-
		00083	झिलमिला	धानअसिचित	-	-	-	-
		00084	खजरी माल	धानअसिचित	-	-	-	-
		00085	साम्हर	धानअसिचित	-	-	-	-
		00086	घादपुर	धानअसिचित	-	-	-	-
		00087	सिंधौली	धानअसिचित	-	-	-	-
		00088	भवसा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00089	परसेल	धानअसिचित	-	-	-	-
		समनापुर						
		00115	बिलाई खार	धानअसिचित	-	-	-	-
		00117	पिपरिया	धानअसिचित	-	-	-	-
		00118	मारगाव	धानअसिचित	-	-	-	-
		00119	पडरिया	धानअसिचित	-	-	-	-
		00120	सुन्दरपुर रयत	धानअसिचित	-	-	-	-
		00123	प्रेमपुर माल	धानअसिचित	-	-	-	-
		00124	कोकोमट;टा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00125	नानडिण्डीरी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00126	समनापुर	धानअसिचित	-	-	-	-
		00127	देवलपुर रयत	धानअसिचित	-	-	-	-
		00151	छटा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00152	कियटी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00153	माधोपुर	धानअसिचित	-	-	-	-
		00154	कंधनपुर माल	धानअसिचित	-	-	-	-
		00155	खाम्हा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00156	कुकरोमठ	धानअसिचित	-	-	-	-
		00157	बुडरुखी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00122	मुकुटपुर रयत	धानअसिचित	-	-	-	-
		00149	सरई माल	धानअसिचित	-	-	-	-
		00150	पडरिया	धानअसिचित	-	-	-	-

		00116	मझगाव रयत	धानअसिचित	-	-	-	-
		00121	झांकी माल	धानअसिचित	-	-	-	-
	<b>बजाग</b>							
	<b>करजिया</b>							
		00223	उमरिया रयत	धानअसिचित	-	-	-	-
		00224	बरबसपुर माल	धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00225	सेनगुडा रयत	धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00226	रुसा माल	धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00227	बुन्देला रयत	धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00228	रामनगर रयत	धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00229	बरनई माल	धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00230	मेढाखार माल	धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00231	गारकामट्टा रयत	धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00232	किरंगी माल	धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00233	खन्नात माल	धानअसिचित	-	-	-	-
		00234	करजिया माल	धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00235	बोंदर रयत	धानअसिचित	-	-	-	-
		00236	रैतवार माल	धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00237	नारी ग्वारा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00209	पाटनगढ माल	धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00211	काटीग्रहन रयत	धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00212	परसेल माल	धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00222	जारासुरंग माल	धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
	<b>गाडासरई</b>							
		00158	गीधा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00159	पिण्डरूखी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00160	करोपानी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00161	खरगहना	धानअसिचित	-	-	-	-
		00162	बिझौली माल	धानअसिचित	-	-	-	-
		00163	सुनियामार माल	धानअसिचित	-	-	-	-
		00164	कोडिया	धानअसिचित	-	-	-	-
		00165	सुन्हादादर	धानअसिचित	-	-	-	-
		00166	उफरी माल	धानअसिचित	-	-	-	-
		00167	बोंदर माल	धानअसिचित	-	-	-	-
		00168	सुनपुरी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00169	सुकलपुरा माल	धानअसिचित	-	-	-	-
		00170	बरगाव माल	धानअसिचित	-	-	-	-
		00171	केवलारी माल	धानअसिचित	-	-	-	-
		00172	करोदा माल	धानअसिचित	-	-	-	-
		00173	गिरवरपुर माल	धानअसिचित	-	-	-	-
		00174	बछरगाव माल	धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00194	गाडासरई	धानअसिचित	-	-	-	-
		00195	बरसोत माल	धानअसिचित	-	-	-	-
		00196	मझियाखार माल	धानअसिचित	-	-	-	-
		00197	गन्नागुडा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00198	शोभापुर	धानअसिचित	-	-	-	-
		00199	किकरा तालाब रयत	धानअसिचित	-	-	-	-
		00200	परसवाह	धानअसिचित	-	-	-	-
		00201	पथरकचा रयत	धानअसिचित	-	-	-	-
	<b>गोरखपुर</b>							
		00202	मोहतरा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00203	भुसां मुण्डी माल	धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00204	बहम्नी उर्फ धवा झंगरी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00205	गोरखपुर माल	धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00206	चन्दना रयत	धानअसिचित	-	-	-	-
		00207	मानिकपुर रयत	धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00213	सेलवारा	धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-

		00214	बिदासदेह	धानअसिधित	सोयाबीन	-	-	-
		00215	झनकी माल	धानअसिधित	सोयाबीन	-	-	-
		00218	जुगदेही	धानअसिधित	सोयाबीन	-	-	-
		00208	भुसण्डा माल	धानअसिधित	-	-	-	-
		00210	भलखोहा माल	धानअसिधित	-	-	-	-
		00216	सठवाछपर	धानअसिधित	-	-	-	-
		00219	खाम्हाखुदरा	धानअसिधित	-	-	-	-
		00220	चकमी माल	धानअसिधित	-	-	-	-
		00221	गोपालपुर	धानअसिधित	-	-	-	-
		00217	बाहरपुर रैयत	धानअसिधित	सोयाबीन	-	-	-
	<b>बजाग</b>							
		00175	घोपतपुर माल	धानअसिधित	-	-	-	-
		00177	सरवाही माल	धानअसिधित	-	-	-	-
		00178	सिंधपुर माल	धानअसिधित	-	-	-	-
		00179	आमा डोंगरी	धानअसिधित	-	-	-	-
		00180	दुल्लोपुर	धानअसिधित	-	-	-	-
		00181	पडरिया डोंगरी	धानअसिधित	-	-	-	-
		00184	सारंगपुर माल	धानअसिधित	सोयाबीन	-	-	-
		00185	भानपुर माल	धानअसिधित	-	-	-	-
		00186	मिठली रैयत	धानअसिधित	-	-	-	-
		00187	भुरसी माल	धानअसिधित	-	-	-	-
		00188	बिलईखार माल	धानअसिधित	-	-	-	-
		00189	अंगई माल	धानअसिधित	-	-	-	-
		00190	सिंगारसती रैयत	धानअसिधित	-	-	-	-
		00191	विक्रमपुर माल	धानअसिधित	-	-	-	-
		00192	लालपुर माल	धानअसिधित	-	-	-	-
		00193	धनीली माल	धानअसिधित	सोयाबीन	-	-	-
		00176	पिपरिया माल	धानअसिधित	-	-	-	-
		00182	बजाग माल	धानअसिधित	-	-	-	-
		00183	बजाग रैयत	धानअसिधित	-	-	-	-
	<b>शाहपुरा</b>							
	<b>अमेरा</b>							
		00036	पिपरिया कला	धानअसिधित	-	-	-	-
		00037	पलकी रैयत	धानअसिधित	-	-	-	-
		00038	अमठेरा	धानअसिधित	-	-	-	-
		00065	दुबामाल	धानअसिधित	-	-	-	-
		00067	मालपुर माल	धानअसिधित	-	-	-	-
		00068	अमेरा	धानअसिधित	-	-	-	-
		00069	राखी माल	धानअसिधित	-	-	-	-
		00066	पटपरा माल	धानअसिधित	-	-	-	-
		00070	देवरी माल	धानअसिधित	-	-	-	-
	<b>कोहानीदेवरी</b>							
		00017	पिपरिया माल	धानअसिधित	-	-	मक्का	-
		00019	सरसवाही माल	धानअसिधित	-	-	मक्का	-
		00020	बढईगढ माल	धानअसिधित	-	-	मक्का	-
		00021	ददरगाव	धानअसिधित	-	-	मक्का	-
		00022	मटका रैयत	धानअसिधित	-	-	मक्का	-
		00023	खैरभगदू माल	धानअसिधित	-	-	-	-
		00047	गुरैया	धानअसिधित	-	-	-	-
		00048	दल्काखम्हरिया माल	धानअसिधित	-	-	-	-
		00049	देवरी कला	धानअसिधित	-	-	-	-
		00050	कजेहरा	धानअसिधित	-	-	-	-
	<b>बिछिया</b>							
		00051	गुलवाह	धानअसिधित	-	-	-	-
		00052	रावन कुण्ड	धानअसिधित	-	-	-	-
		00053	टिकरा सरई उर्फ बासा	धानअसिधित	-	-	-	-
		00054	दल्कासरई माल	धानअसिधित	-	-	-	-

		00055	छपरा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00056	कटगी	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00058	देवरी कला	धानअसिचित	-	-	-	-
		00059	बडझर माल	धानअसिचित	-	-	-	-
		00060	मोहनी माल	धानअसिचित	-	-	-	-
		00071	विलगडा माल	धानअसिचित	-	-	-	-
		00072	कुटरेई माल	धानअसिचित	-	-	-	-
		00057	विछिया	धानअसिचित	-	-	-	-
		00073	पिपरिया	धानअसिचित	-	-	-	-
		00074	भानपुर	धानअसिचित	-	-	-	-
	मैहदवानी							
		00076	मनेरी रेयत	धानअसिचित	-	-	-	-
		00078	सांस डोली माल	धानअसिचित	-	-	-	-
		00079	कोसम घाट	धानअसिचित	-	-	-	-
		00080	सूरजपुरा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00082	डोकरघाट	धानअसिचित	-	-	-	-
		00083	मटियारी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00084	मैहदवानी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00085	इलहरी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00086	भुरका	धानअसिचित	-	-	-	-
		00087	धमनी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00088	कठीतिया	धानअसिचित	-	-	-	-
		00089	बरई	धानअसिचित	-	-	-	-
		00090	खजरी माल	धानअसिचित	-	-	-	-
		00091	पारापानी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00092	खजरवारा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00093	सरसी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00095	पडरिया	धानअसिचित	-	-	-	-
		00096	उमरिया रेयत	धानअसिचित	-	-	-	-
		00097	सुखलीडी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00098	जरहानेझर	धानअसिचित	-	-	-	-
		00099	पायली	धानअसिचित	-	-	-	-
		00100	जैतपुर	धानअसिचित	-	-	-	-
		00075	सारंगपुर	धानअसिचित	-	-	-	-
		00077	कनेरी माल	धानअसिचित	-	-	-	-
		00081	फूलवाही	धानअसिचित	-	-	-	-
		00094	चिरपटी माल	धानअसिचित	-	-	-	-
		00101	कन्हारी	धानअसिचित	-	-	-	-
	रयपुरा							
		00002	पायलीघुघरी माल	धानअसिचित	-	-	-	-
		00003	धिरवन कला	धानअसिचित	-	-	-	-
		00007	घुसिया रेयत	धानअसिचित	-	-	-	-
		00008	डोभी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00009	देवगांव माल	धानअसिचित	-	-	-	-
		00010	सरसवाही माल	धानअसिचित	-	-	-	-
		00011	मानिकपुर	धानअसिचित	-	-	-	-
		00012	भरौठी माल	धानअसिचित	-	-	-	-
		00013	रयपुरा माल	धानअसिचित	-	-	-	-
		00014	दुल्लोपुर	धानअसिचित	-	-	-	-
		00015	सांगवा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00016	सरई माल	धानअसिचित	-	-	-	-
		00018	बन्तरा माल	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00028	पडरिया कला	धानअसिचित	-	-	-	-
		00029	धिरवन खुर्द	धानअसिचित	-	-	-	-
		00001	मोहरा कला	धानअसिचित	-	-	-	-
		00004	मिलाई माल	धानअसिचित	-	-	-	-
		00005	सलेया	धानअसिचित	-	-	-	-
		00006	मगर मयटगर	धानअसिचित	-	-	-	-

	राई	00102	छिरपानी	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00103	पठरीटोला माल	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00104	राघोपुर माल	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00105	खन्हरिया	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00106	योबीसा माल	धानअसिंचित	-	-	मक्का	-
		00107	कलगीटोला माल	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00108	भलबारा	धानअसिंचित	-	-	मक्का	-
		00109	जरगुडा	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00110	राई	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00111	खरगवारा	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00112	भौंडासाज माल	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00113	केवलारदर	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00114	बुन्दा माल	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00115	मसूरघुघरी	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00116	धनगाव	धानअसिंचित	-	-	-	-
	शहपुरा							
		00024	देवरी खुर्द	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00025	भीमपार	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00026	मरवाही	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00027	बरोदी माल	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00030	टिकरिया	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00032	गनेशपुर	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00033	झगरहटा डुगरिया	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00034	मौंडी	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00035	ठौंडा रैयत	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00039	विलगाव	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00040	बरगाव	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00041	करौंदी	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00042	बांकी	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00043	रनगाव	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00044	शहपुरा	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00045	बिजौरी माल	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00046	बरखेडा माल	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00061	कारी गडहरी माल	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00062	कचनपुर माल	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00063	इन्दौरी माल	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00064	घन्टवाही माल	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00031	सयामपुर माल	धानअसिंचित	-	-	मक्का	-

**प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार पटवारी हल्कों की सूची**

सी.सम	खरीफ	वर्ष	2016-2017	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफलवाली धानित फसलों की हल्कावार सूची	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	बाजरा
जिला	तहसील	रा.नि.म.का नाम	पटवारी हल्का न.	पटवारी मुख्यालय का नाम						
शाहडोल										
मूल अधिसूचना क्र 189, दिनांक 23.4.2016 में निम्नानुसार पटवारी हल्कों की फसलों को जोड़ा जाता है।										
	गोहपास									
		खन्नीधी								
			00001	सन्ना प.ह.नं. 1		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00002	विसनपुरवा प.ह.नं. 2		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00003	अकुरी प.ह.नं. 3		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00004	ददरा टोला प.ह.नं. 4		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00005	खोहरी प.ह.नं. 5		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00006	रतहर प.ह.नं. 6		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00007	मलमाथर प.ह.नं. 7		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00008	खाड प.ह.नं. 8		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00009	बरहा प.ह.नं. 09		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00010	खन्नीधी प.ह.नं. 10		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00011	नवागाव प.ह.नं. 11		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00012	लोढ़ी प.ह.नं. 12		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00013	पलसऊ प.ह.नं. 13		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00014	सरसी प.ह.नं. 14		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00015	पाथर प.ह.नं. 15		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00016	दुलादर प.ह.नं. 16		धानअसिंचित	-	-	-	-
		चुहिरा								
			00017	उमरिया प.ह.नं. 17		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00018	बरकोड़ा प.ह.नं. 18		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00019	भुरसी प.ह.नं. 19		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00020	महरीई प.ह.नं. 20		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00021	पोड़ी प.ह.नं. 21		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00022	भदवाही प.ह.नं. 22		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00023	हरी प.ह.नं. 23		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00024	उचेहरा प.ह.नं. 24		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00025	भरी प.ह.नं. 25		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00026	नवाटोला प.ह.नं. 26		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00027	चुहिरा प.ह.नं. 27		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00028	चुहिरा प.ह.नं. 28		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00029	लेदरा प.ह.नं. 29		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00030	सगरा प.ह.नं. 30		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00031	मझौली प.ह.नं. 31		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00032	बरेली प.ह.नं. 32		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00033	बरभनिया प.ह.नं. 33		धानअसिंचित	-	-	-	-
		गोहपास								
			00034	रामपुर प.ह.नं. 34		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00035	खाम्हा प.ह.नं. 35		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00036	दियापीपर हल्का नं. 35		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00037	सुडवार प.ह.नं. 39		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00038	मोहतरा प.ह.नं. 37		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00039	असवारी प.ह.नं. 38		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00040	गोहपास प.ह.नं. 39		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00041	सेमरा प.ह.नं. 40		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00042	करुआ प.ह.नं. 41		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00043	देवदल प.ह.नं. 42		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00044	देवरी प.ह.नं. 43		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00045	पटोरी प.ह.नं. 44		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00045	वाचकी प.ह.नं. 45		धानअसिंचित	-	-	-	-



		00046	सकरिया प.ह.न.46	धानअसिचित	-	-	-	-
		00047	गोडाक प.ह.न.47	धानअसिचित	-	-	-	-
		00048	पलवाह प.ह.न.48	धानअसिचित	-	-	-	-
		00049	करी प.ह.न.49	धानअसिचित	-	-	-	-
		00050	दियापीपर प.ह.न.50	धानअसिचित	-	-	-	-
		00051	हरहाटोला प.ह.न.51	धानअसिचित	-	-	-	-
	लफदा							
		00052	कनवाही प.ह.न.52	धानअसिचित	-	-	-	-
		00053	गुरी प.ह.न.53	धानअसिचित	-	-	-	-
		00054	देवगढ़ प.ह.न.54	धानअसिचित	-	-	-	-
		00055	लफदा प.ह.न.55	धानअसिचित	-	-	-	-
		00056	गुदा प.ह.न.56	धानअसिचित	-	-	-	-
		00057	धनगवा प.ह.न.57	धानअसिचित	-	-	-	-
		00058	देवरी प.ह.न.58	धानअसिचित	-	-	-	-
	जयसिंहनगर							
	टिहकी							
		00003	रउसा 3	धानअसिचित	-	-	-	मकका
	जैतपुर							
	रसमोहनी							
		00008	बदौडी प.ह.न.8	धानअसिचित	-	-	-	-
		00009	खैरहनी प.ह.न.9	धानअसिचित	-	-	-	-
		00010	नौगवा प.ह.न.10	धानअसिचित	-	-	-	-
		00011	मोहतारा प.ह.न.11	धानअसिचित	-	-	-	-
		00012	घोघरी प.ह.न.12	धानअसिचित	-	-	-	-
		00013	मलया प.ह.न.13	धानअसिचित	-	-	-	-
		00014	कचहर प.ह.न.14	धानअसिचित	-	-	-	-
		00015	भठिया प.ह.न.15	धानअसिचित	-	-	-	-
		00016	कोल्हवा प.ह.न.16	धानअसिचित	-	-	-	-
	जैतपुर							
		00024	साखी प.ह.न.24	धानअसिचित	-	-	-	-
		00025	नगपुरा प.ह.न.25	धानअसिचित	-	-	-	-
		00026	खोहरा प.ह.न.26	धानअसिचित	-	-	-	-
		00027	कदौडी प.ह.न.27	धानअसिचित	-	-	-	-
		00028	बलभद्रपुर नो1.न.28	धानअसिचित	-	-	-	-
		00029	गलहथा प.ह.न.29	धानअसिचित	-	-	-	-
		00030	नवाटोला प.ह.न.30	धानअसिचित	-	-	-	-
		00031	सेजहाई प.ह.न.31	धानअसिचित	-	-	-	-
	बिजरी							
		00038	ममरा प.ह.न.38	धानअसिचित	-	-	-	-
		00039	रेकोबा प.ह.न.39	धानअसिचित	-	-	-	-
		00040	दरसिला प.ह.न.40	धानअसिचित	-	-	-	-
		00041	बिलटिकरी प.ह.न.41	धानअसिचित	-	-	-	-
		00042	कोलमी प.ह.न.42	धानअसिचित	-	-	-	-
	रुपीला							
		00053	चकौडिया प.ह.न.53	धानअसिचित	-	-	-	-
		00054	खाम्हीडोल प.ह.न.54	धानअसिचित	-	-	-	-
		00055	बोकरामार प.ह.न.55	धानअसिचित	-	-	-	-
		00056	शाहपुर प.ह.न.56	धानअसिचित	-	-	-	-
	धन्नीडी							
		00067	बलबहरा प.ह.न.67	धानअसिचित	-	-	-	-
		00068	अमलई प.ह.न.68	धानअसिचित	-	-	-	-
		00069	डोलकू प.ह.न.69	धानअसिचित	-	-	-	-
		00070	गिरवा प.ह.न.70	धानअसिचित	-	-	-	-
	केशवाही							
		00082	जमुनिहा प.ह.न.82	धानअसिचित	-	-	-	-
		00083	धनीरा प.ह.न.83	धानअसिचित	-	-	-	-
		00084	मजीरा प.ह.न.84	धानअसिचित	-	-	-	-
		00085	जमगांव प.ह.न.85	धानअसिचित	-	-	-	-
	बठार							
	बठार	00001	नौगई प.ह.न.1	धानअसिचित	-	-	-	-

		00002	चम्परा प.ह.नं.2	धानअसिंचित				
		00003	ऊटा अणु नवाटोला प.ह.नं.3	धानअसिंचित				
		00004	किन्हली प.ह.नं.4	धानअसिंचित				
		00005	घाका प.ह.नं.5	धानअसिंचित				
		00006	खम्हरीध प.ह.नं.6	धानअसिंचित				
		00007	बिछिया प.ह.नं.7	धानअसिंचित				
		00008	अतरिया प.ह.नं.8	धानअसिंचित				
		00009	रामपुर प.ह.नं.9	धानअसिंचित				
		00010	पडरिया प.ह.नं.10	धानअसिंचित				
		00011	बदरा प.ह.नं.11	धानअसिंचित				
		00012	बकही प.ह.नं.12	धानअसिंचित				
		00013	सावो प.ह.नं.13	धानअसिंचित				
		00014	जरवाही प.ह.नं.14	धानअसिंचित				
		00015	पकरिया प.ह.नं.15	धानअसिंचित				
		00016	सेमरा प.ह.नं.16	धानअसिंचित				
		00017	कटकोना प.ह.नं.17	धानअसिंचित				
		00018	बूदार प.ह.नं.18	धानअसिंचित				
	धनपुरी							
		00019	विक्रमपुर प.ह.नं.19	धानअसिंचित				
		00020	धनपुरा प.ह.नं.20	धानअसिंचित	सोयाबीन			
		00021	बरतरा हल्का नं.21	धानअसिंचित	सोयाबीन			
		00022	चिटहला प.ह.नं.22	धानअसिंचित				
		00023	गोपालपुर प.ह.नं.23	धानअसिंचित				
		00024	सरईकापा प.ह.नं.24	धानअसिंचित				
		00025	धनपुरी प.ह.नं.25	धानअसिंचित				
		00026	सिलपुरी प.ह.नं.26	धानअसिंचित				
		00027	बेन्हीरी प.ह.नं.27	धानअसिंचित				
		00028	बन्डीखुर्द प.ह.नं.28	धानअसिंचित				
	खैरहा							
		00029	देवगवा प.ह.नं.29	धानअसिंचित				
		00030	सिरौजा प.ह.नं.30	धानअसिंचित				
		00031	करकटी हल्का नं.31	धानअसिंचित				
		00032	खन्नाथ प.ह.नं.32	धानअसिंचित	सोयाबीन			
		00033	छिरहटी प.ह.नं.33	धानअसिंचित				
		00034	खैरहा प.ह.नं.34	धानअसिंचित	सोयाबीन			
		00035	धमनीकला प.ह.नं.35	धानअसिंचित	सोयाबीन			
		00036	सारंगपुर प.ह.नं.36	धानअसिंचित	सोयाबीन			
		00037	अरझुला प.ह.नं.37	धानअसिंचित				
		00038	लखवरिया प.ह.नं.38	धानअसिंचित				
		00039	धनीरा प.ह.नं.39	धानअसिंचित				
		00040	खोह प.ह.नं.40	धानअसिंचित				
	ढ्योहारी	पपौध						
		13	विजयसोता					
		22	बनासी					
	ढ्योहारी							
		00023	तिखवा	धानअसिंचित				
		00034	मउ	धानअसिंचित				
	खाड़							
		35	बोकराबोकरी					
		00043	अंवरहा	धानअसिंचित		तुअर		
		00044	अन्नी	धानअसिंचित		तुअर		
	बड़वा							
		49	गोपालपुर					
	सोहागपुर							
	कचनपुर							
		00008	खेतौली प.ह.नं.08	धानअसिंचित				
		00009	सेन्द्री प.ह.नं.08	धानअसिंचित	सोयाबीन			

		00010	पोगरी प.ह.नं. 10.	धानअसिंचित	सोयाबीन	-			
		00011	हरदी प.ह.नं.11	धानअसिंचित	सोयाबीन	-			
		00012	नवलपुर प.ह.नं.12	धानअसिंचित	सोयाबीन	-			
		00013	लालपुर प.ह.नं. 13	धानअसिंचित	-	-			
		00014	छाता प.ह.नं.14	धानअसिंचित	-	-			
		00015	उधिया प.ह.नं.15	धानअसिंचित	-	-			
		00016	कंचनपुर प.ह.नं.16	धानअसिंचित	-	-			
			<b>सोहागपुर नं.1</b>						
		00019	जमुई प.ह.नं.19	धानअसिंचित	सोयाबीन	-			
		00020	गोरतरा प.ह.नं.20	धानअसिंचित	-	-			
		00022	कोटमा प.ह.नं.	धानअसिंचित	-	-			
		00023	मेकी प.ह.नं. 23	धानअसिंचित	-	-			
		00030	खोल्हाड प.ह.नं.30	धानअसिंचित	-	-			
		00031	चुनिया प.ह.नं 31	धानअसिंचित	-	-			
		00032	खन्हरियाकला प.ह.नं. 83	धानअसिंचित	-	-			
		00033	मझगवां प.ह.नं.33	धानअसिंचित	-	-			
			<b>सिहपुर</b>						
		00034	जुगवारी प.ह.नं.34	धानअसिंचित	सोयाबीन	-			
		00035	बंधवाबड़ा प.ह.नं.35	धानअसिंचित	सोयाबीन	-			
		00036	झगरहा प.ह.नं. 36	धानअसिंचित	सोयाबीन	-			
		00037	पचगांव प.ह.नं. 88	धानअसिंचित	-	-			
		00038	दूधी प.ह.नं.38	धानअसिंचित	-	-			
		00039	जोधपुर प.ह.नं.39	धानअसिंचित	-	-			
		00040	सिहपुर हल्का नं	धानअसिंचित	सोयाबीन	-			
		00041	पैताझर प.ह.नं.41	धानअसिंचित	-	-			
		00042	पडमनिया खुई प.ह.नं.42	धानअसिंचित	-	-			
		00043	पडमनिया कलाप.ह.नं.43	धानअसिंचित	-	-			
		00044	नरगी प.ह.नं.44	धानअसिंचित	-	-			
		00045	बोडरी प.ह.नं.45	धानअसिंचित	सोयाबीन	तुअर			
		00046	मिठौरी प.ह.नं.46	धानअसिंचित	सोयाबीन	-			
		00047	हरोटोला प.ह.नं.47	धानअसिंचित	-	-			
			<b>अमरहा</b>						
		00048	केलमनियां प.ह.नं.	धानअसिंचित	सोयाबीन	-			
		00049	पतखई प.ह.नं.49	धानअसिंचित	सोयाबीन	-			
		00050	पठरा प.ह.नं. 50	धानअसिंचित	सोयाबीन	-			
		00051	भमरहा प.ह.नं. 51	धानअसिंचित	सोयाबीन	-			
		00052	करुआताल प.ह.नं 52	धानअसिंचित	सोयाबीन	-			
		00053	मड़वा प.ह.नं.53	धानअसिंचित	सोयाबीन	-			
		00054	भानपुर प.ह.नं. 54	धानअसिंचित	सोयाबीन	-			
		00056	अमरहा प.ह.नं.56	धानअसिंचित	सोयाबीन	-			
		00057	बमुरा प.ह.नं. 57	धानअसिंचित	सोयाबीन	-			
		00058	कठौतिया प.ह.नं.58	धानअसिंचित	सोयाबीन	-			
		00059	सामतपुर प.ह.नं 59	धानअसिंचित	सोयाबीन	-			
		00060	हरदी प.ह.नं. 60	धानअसिंचित	सोयाबीन	-			